



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1933 (श0)
(सं0 पटना 755) पटना, सोमवार, 19 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2011

सं0 ए0/यो0 निगम अधि0-24/11-8441/जे0—बिहार राज्य मुकदमा नीति '2011 (Bihar State Litigation Policy '2011) के अध्याय-XI की कंडिका 11(बी)(1) में निहित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय स्तर के सभी मुकदमों का नियंत्रण एवं अनुश्रवण कार्य सीधे महाधिवक्ता बिहार के नियंत्राधीन होगा। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक प्राधिकारों सम्बन्धित वादों की देख रेख के लिए दिल्ली में एक विधिक कोषांग होगी। यह कोषांग महाधिवक्ता के निदेश (Guidance) में कार्य करेगा और उसका प्रशासनिक नियंत्रण अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी जो दिल्ली में पदस्थापित होंगे के अधीन रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 755-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>